



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतिष्ठापक से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 390]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 29, 1976/अग्रहायण 8, 1898

No. 390]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 29, 1976/AGRAHAYANA 8, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

### NOTIFICATION

#### CUSTOMS

*New Delhi, the 29th November, 1976*

**G.S.R. 903(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Department of Revenue & Banking (Revenue Wing), No. 228-Customs, dated the 2nd August, 1976, namely:—

In the said notification, for the words, figures and brackets "exempt; articles made of plastics, all sorts, but excluding those specified in the Table annexed hereto and falling within Chapter 39 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from payment of so much of the duty of customs as is leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act," the following shall be substituted, namely:—

"exempts articles made of plastics, all sorts, but excluding those specified in the Table annexed hereto, from payment of so much of the duty of customs as is leviable thereon under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)".

[No. 443/No. F. 355/177/76-Cus. 11

M. JAYARAMAN, Under Secy.

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

अधिसूचना

सीमा-शुल्क

नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 1976

सा० का० नि० 903 (अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग (राजस्व पक्ष) की अधिसूचना सं० 228-सीमाशुल्क, तारीख 2 अगस्त, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, 'सभी प्रकार की प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को, किन्तु जिसमें इससे उपावृद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं और जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के प्रध्याय 39 के प्रत्यर्गत प्राणी हैं, द्वितीय वर्गित अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने अंश के संदाय से छूट देती है' शब्दों, अंशों और कोष्ठकों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“प्लास्टिक से बनी सभी प्रकार की वस्तुओं को, किन्तु जिसमें इससे उपावृद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट वस्तुएं सम्मिलित नहीं हैं, सीमाशुल्क के उतने अंश के संदाय से छूट देती है, जितना सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय है”।

[सं० 443/का० सं० 355/177/76-सीमाशुल्क-I]

एम० जयराम, अवर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976